



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 09.02.2021

1-थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा असली नोट की जगह नकली नोट का प्रयोग करने वाले गिरोह का भांडाफोड कर 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 3600 रूपये के असली व 17,96,400 रूपये के नकली नोट बरामद।

दिनांक 09/02/2021 को थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा नकली नोट से असली नोट की जगह नकली नोट का प्रयोग करने वाले गिरोह का भांडाफोड कर 02 शातिर अभियुक्त 1. मनोज शाह पुत्र रामविलास शाह निवासी वर्तमान पता डी 92 शिव दुर्ग विहार लक्कडपुर सुरजकुण्ड फरीदाबाद मूल पता ग्राम सखबाद थाना मनीगाछी जिला दरंभगा 2. सतेन्द्र उपाध्याय पुत्र सद्धानन्द उपाध्याय वर्तमान पता ग्राम शाहपुर फरीदाबाद बल्लभगढ मूल पता ग्राम कृपालपुर थाना हल्दी जिला बलिया को थाना क्षेत्र के बरौला टी पाइन्ट के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 3600 रूपये के असली व 17,96,400 रूपये के नकली नोट बरामद किये गये हैं।

घटनाक्रम-

अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग असली 10,000 रूपये के बदले नकली 15,000 रूपये देते हैं। ग्राहक जब उन पैसों का इस्तेमाल नकली समझकर करता और रुपयों के मार्केट में चल जाने पर हमसे और रुपये प्राप्त करने हेतु सम्पर्क करता है तब हम उसको बड़ी रकम लेने के लिये राजी करते हैं और इसी प्रकार से मार्केट में उपलब्ध बच्चों के खेलने वाले नोट को खरीदकर उनके आगे पीछे असली नोट लगाकर पेकेट तैयार कर लेते हैं, सतेन्द्र मार्केट से बच्चों के खेलने वाले नोट डिमाण्ड के अनुसार खरीदकर लाता है।

अभियुक्तों का विवरण-

1.मनोज शाह पुत्र रामविलास शाह निवासी वर्तमान पता डी 92 शिव दुर्ग विहार लक्कडपुर सुरजकुण्ड फरीदाबाद मूल पता ग्राम सखबाद थाना मनीगाछी जिला दरंभगा।

2.सतेन्द्र उपाध्याय पुत्र सद्धानन्द उपाध्याय वर्तमान पता ग्राम शाहपुर फरीदाबाद बल्लभगढ मूल पता ग्राम कृपालपुर थाना हल्दी जिला बलिया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 0074/2021 धारा 420/511 भादवि थाना सेक्टर 49 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

एक बैग जिसमें 500 रूपये के दो बंडल जिसमें प्रत्येक में 10 गड्डी, 200 रूपये के तीन बंडल जिसमें प्रत्येक में 10 गड्डी तथा 100 रूपये के दो बंडल जिसमें प्रत्येक में 10 गड्डी कुल असली 3600 रूपये व शेष 17,96,400 रूपये के नकली नोट।



2-थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस द्वारा अपहरण करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08.2.2021 को थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 106/21 धारा 363 आईपीसी से संबंधित अभियुक्त प्रीतम उर्फ प्रिंस पुत्र कृष्णा निवासी दिनेश अंबावत का मकान ग्राम निठारी सेक्टर 31 नोएडा 2. समीर उर्फ संकी चौधरी पुत्र राजेश चौधरी निवासी सेक्टर 45 सदरपुर थाना सेक्टर 39 नोएडा को घटना स्थल जीआईपी मॉल के सामने से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण-

1. प्रीतम पुत्र कृष्णा निवासी दिनेश अंबावत का मकान ग्राम निठारी सेक्टर 31 नोएडा।
- 2.समीर उर्फ संकी चौधरी पुत्र राजेश चौधरी निवासी सेक्टर 45 सदरपुर थाना सेक्टर 39 नोएडा।

अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 106/2021 धारा 363 आईपीसी थाना सेक्टर 20 गौतमबुद्धनगर।

3-थाना ईकोटेक प्रथम पुलिस द्वारा अवैध खनन कर बालू चोरी कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 ट्रैक्टर मय बालू से भरी हुई ट्राली व 02 फावडे बरामद।

दिनांक 08.02.2021 को थाना ईकोटेक प्रथम पुलिस द्वारा अवैध खनन कर बालू चोरी कर रहे 02 अभियुक्त 1.अनिल उर्फ मिन्दू पुत्र हेमराज निवासी दादूपुर थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर 2. मुकेश पुत्र सुरेशचन्द्र निवासी दादूपुर थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर को जंगल ग्राम अटाई से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 ट्रैक्टर मय बालू से भरी हुई ट्राली व 02 फावडे बरामद हुए हैं।

अभियुक्तों का विवरण-

- 1.अनिल उर्फ मिन्दू पुत्र हेमराज निवासी दादूपुर थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर।
- 2.मुकेश पुत्र सुरेशचन्द्र निवासी दादूपुर थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 10/2021 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खनन अधिनियम थाना इकोटेक प्रथम गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

ट्रैक्टर महिन्द्रा 265 डीआई बिना नम्बर मय ट्राली मय बालू से भरी हुई ट्राली व 02 फावडे।



4-थाना जेवर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र रखकर अपराध करने की फिराक में घूम रहा अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से 01 पिस्टल मय कारतूस बरामद।

दिनांक 08/09.02.2021 की रात्रि में थाना जेवर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र रखकर अपराध करने की फिराक में घूम रहा अभियुक्त योगेश पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम थोरा थाना जेवर गौतमबुद्धनगर को साबौता कट के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 पिस्टल .32 बोर व 01 कारतूस .32 बोर जिन्दा बरामद किए गए है।

अभियुक्त का विवरण-

योगेश पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम थोरा थाना जेवर गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु.अ.सं. 56/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

01 पिस्टल .32 बोर व 01 01 कारतूस .32 बोर जिन्दा



5-थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा घर से लापता हुए 03 बच्चे बरामद।

दिनांक 09.02.2021 को थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा मु0अ0स0 45/2021 धारा 363 भादवि थाना नॉलेज पार्क से संबंधित घर से लापता हुए 03 बच्चे 1.पवन कुमार उम्र 12 वर्ष पुत्र श्री सुरेन्द्र लाल 2. नूरआलम उम्र 11 वर्ष पुत्र ऐहसानुल 3. राहिल अंसारी उम्र 14 वर्ष पुत्र ताजूल अंसारी समस्त निवासी आरडी ऐजुकेशन प्लाट न0-14 नॉलेज पार्क 3 थाना नालेज पार्क गौतमबुद्धनगर को पहाडगंज नई दिल्ली से बरामद किया गया है।

उक्त बच्चे दिनांक 03.02.2021 को झुग्गी/घर से अचानक गायब हो गये थे जिसके सम्बन्ध में वादी श्री सुरेन्द्र लाल पुत्र मनिक लाल द्वारा थाना नालेज पार्क पर दिनांक 04.02.2021 को सूचना दी गयी थी। जिस पर थाना नालेज पार्क पुलिस द्वारा तत्काल मु0अ0स0 45/2021 धारा 363 भादवि पंजीकृत कराते हुए दो टीमों गठित की गयी थी। जिनके द्वारा तीनो बच्चों को सकुशल पहाडगंज नई दिल्ली से बरामद किया गया है। बच्चे पाकर बच्चों के परिजनों व उनके रिश्तेदारों तथा स्थानीय लोग द्वारा गौतमबुद्धनगर पुलिस की बेहद प्रशंसा की गयी।

बच्चों का विवरण-

- 1.पवन कुमार उम्र 12 वर्ष पुत्र श्री सुरेन्द्र लाल निवासी आरडी ऐजुकेशन प्लाट न0- 14 नॉलेजपार्क-3 थाना नॉलेज पार्क गौतमबुद्धनगर।
- 2.नूरआलम उम्र 11 वर्ष पुत्र ऐहसानुल निवासी आरडी ऐजुकेशन प्लाट न0-14नॉलेज पार्क-3 थाना नॉलेज पार्क गौतमबुद्धनगर।
3. राहिल अंसारी उम्र 14 वर्ष पुत्र ताजूल अंसारी निवासी आरडी ऐजुकेशन प्लाट न0-14 नॉलेज पार्क-3 थाना नॉलेज पार्क गौतमबुद्धनगर।

अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 45/2021 धारा 363 भादवि थाना नॉलेज पार्क गौतमबुद्धनगर।

6-थाना बीटा- 2 द्वारा दोहरे हत्या काण्ड में वांछित 02 अभियुक्त पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार, कब्जे से मोटरसाइकिल, अवैध शस्त्र मय कारतूस, नगदी और आभूषण बरामद।

दिनांक 09.02.2021 को थाना बीटा 2 पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के डाढ़ा गोल चक्कर के पास हुई पुलिस मुठभेड के दौरान दोहरे हत्या काण्ड में वांछित 02 अभियुक्त 1. रोहित पुत्र रामवीर बाल्मिकी व 2. सुभाष पुत्र रामाधार अहिरवार को गोली लगने के कारण घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से मोटरसाइकिल, अवैध शस्त्र मय कारतूस, नगदी और आभूषण बरामद किये गये है। घायल अभियुक्तों को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्तों के 02 अन्य साथियों को पूर्व में ही दिनांक 07/02/2021 को ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है।

घटना का विवरण-

दिनांक 04/05.02.2021 को नरेन्द्र नाथ व उनकी पत्नी श्रीमती सुमन नाथ निवासी आई 24 अल्फा 2 थाना बीटा ग्रे.नो.की उनके घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गयी थी। इस सम्बन्ध में

मृतक नरेन्द्र नाथ की पुत्र वधू श्रीमती निधि नाथ पत्नी रोहित नाथ ने थाना बीटा 2 पर अभियोग मु0अ0स0 63/2021 धारा 302 भादवि पंजीकृत कराया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. रोहित पुत्र रामवीर बाल्मिकी निवासी दातो की नगलिया इग्लास अलीगढ़।
2. सुभाष पुत्र रामाधार अहिरवार निवासी नरवारा थाना अजनर जिला महोबा।

अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 63/2021 धारा 302 भादवि थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर।


बरामदगी का विवरण-

1. 01मोटरसाइकिल
2. अवैध शस्त्र मय कारतूस
3. नगदी और आभूषण

थाना क्षेत्र दादरी के अंतर्गत पीआरवी 1271 ईस्टर्न पैरिफेरियल पर खड़ी थी तभी एक राहगीर द्वारा आकर सूचना दी गई की दादरी टोल के पास दो गाडियों की टक्कर होकर गम्भीर एक्सीडेन्ट हो गया है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त पीआरवी पर मौजूद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे व ऐक्सिडेंट से घायल हुए व्यक्तियों को तुरन्त अस्पताल पहुंचाया गया तथा दोनो क्षतिग्रस्त गाडियों को सडक से किनारे किया गया जिससे कोई अन्य दुर्घटना न हो। पीआरवी पर नियुक्त पुलिसकर्मियों की तत्परता के कारण एक्सीडेन्ट से घायल हुए व्यक्तियों को समय से उपचार दिलाकर एवं उनकी जान बचाकर किये गये इस सराहनीय कार्य के लिए घायल व्यक्तियों के परिजनों व स्थानीय लोगो द्वारा गौतमबुद्धनगर पुलिस कि भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

"मिशन शक्ति" अभियान के अंतर्गत दिनांक 09/02/2021 को पुलिस उपायुक्त महिला सुरक्षा के नेतृत्व में नोडल अधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के सहयोग से पुलिस आयुक्त कार्यालय, सेक्टर 108 नोएडा स्थित सभागार में महिला पुलिसकर्मियों के स्तन/मुंह के कैंसर एवं दांतों की जांच हेतु कैंप का आयोजन किया गया। जिनमें काफी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों

द्वारा भाग लिया गया। इस प्रकार के कैंप का आयोजन प्रत्येक सप्ताह कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि समस्त महिला पुलिसकर्मियों को इसका लाभ पहुंचाया जा सके।



राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह (21 जनवरी 2021 से 20 फरवरी 2021) के अंतर्गत आयोजित किये जा रहे कार्यक्रमों की कड़ी में दिनांक 09 फरवरी 2021 को नोएडा बस एसोसिएशन के सहयोग से एक सड़क-सुरक्षा जागरूकता संबंधी कार्यशाला एवं निजी वाहन ऑपरेटर/चालकों/परिचालकों के नेत्र व स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया।

यह आयोजन सेक्टर 40 स्थित प्रीत मंच के भवन में किया गया। इस अवसर पर लोगों को सड़क सुरक्षा के संबंध में वीडियो व ऑडियो एवं संवाद पद्धति के माध्यम से जागरूक किया गया। साथ ही यातायात से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों व चुनातियों के बारे में परिवहन विभाग के अधिकारियों एवं यातायात पुलिस विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया।

एसोसिएशन के महासचिव श्री अनिल दीक्षित ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए हर चौराहे पर बाएं साइड यू टर्न को चौराहे से करीब 100 मीटर पहले बनाने पर जोर दिया, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्याएं काफी हद तक कम होगी। श्री अशोक चौहान ने बताया कि नोएडा को बसाने में बस संचालकों का अहम योगदान रहा है। नोएडा प्राधिकरण द्वारा नोएडा शहर में जो ट्रांसपोर्ट नगर बताया गया है, उसमें बस ऑपरेटर्स का अतुलनीय योगदान है, ऐसी जानकारी उनके द्वारा दी गई।

नोएडा बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने यातायात व्यवस्था को लेकर अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। जिसका परिवहन विभाग के अधिकारियों एवं यातायात पुलिस विभाग के अधिकारियों ने गंभीरता पूर्वक निराकरण करने का आश्वासन दिया ।

इस मौके पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन)अजय मिश्रा व प्रशान्त तिवारी ने जनपद में सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्रयासों और भावी चुनातियों के समाधान के संबंध में अपने विचार रखे और बस ऑपरेटर्स को इसमें सहयोग के लिए प्रेरित भी किया।

इस कार्यशाला में यातायात निरीक्षक नोएडा आशुतोष सिंह व यातायात उपनिरीक्षक बलवीर सिंह ने भी यातायात के नियमों के पालन और उनके उल्लंघन पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए लोगों से सड़क सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण विषय को गंभीरता से लेने की अपील की।

इस कार्यक्रम के दौरान हसन सैयद, महिंद्रा लॉजिस्टिक लि. के सहयोग से आयोजित नेत्र परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में 51 से अधिक चालकों/परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं नेत्र परीक्षण भी किया गया।

कार्यक्रम के दौरान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन)प्रशांत तिवारी व अजय मिश्रा, यात्री कर अधिकारी डॉ ज्योति मिश्रा,यातायात निरीक्षक रविंद्र कुमार वशिष्ठ व आशुतोष सिंह के साथ-साथ जनपद के अन्य यातायात उप निरीक्षक भी उपस्थित रहे। इस मौके पर नोएडा बस एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप धूपर, महासचिव अनिल दीक्षित, पी.एस. चौधरी,कौशल अग्रवाल ,संजय नंबरदार, आलोक सिंह, अशोक चौहान,वी.के.सोनी,विनोद जी समेत चालक/परिचालक मौजूद रहे।

